

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में कहा

हर जरूरतमंद को इलाज के लिए मिलेगी मदद

गोरखपुर, 16 जून (भाषा)।

लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता प्रभावी रहने के कारण मार्च से स्थगित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम को रविवार को आयोजित हुआ जिसमें उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और उनके निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद को इलाज के लिए भरपूर आर्थिक मदद मिलेगी।

इसके पहले लखनऊ के सरकारी आवास में भी मुस्यर्मजी ने जनता की समस्याएं सुनी थीं। गोरखपुर में पिछला जनता दर्शन लोकसभा चुनाव की अभियुक्तता जारी होने से पहले नौ मार्च को हुआ था। रविवार सुनाह जनता दर्शन में काफी संख्या ऐसे लोग थे जो गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुस्यर्मजी ने सभी को आवश्यक किताबें और सस्का इलाज में भरपूर मदद करने के लिए तत्पर है और हर जरूरतमंद को इलाज के लिए मुस्यर्मजी विवेकवादी कोष से भरपूर मदद दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गंभीर बीमारियों में पीड़ित मरीजों के अनुमानित चिकित्सीय खर्च की रकम तैयार कर शासन को जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए और जिन पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएं। मंदिर में जनता दर्शन के दौरान योगी ने करीब 350 लोगों की समस्याएं सुनीं और संशुष्टिपरक समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए।

महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर कुर्सियों पर बैठे लोगों तक योगी खुद पहुंचे और उनकी बातों सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को संदर्भित किया। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को भरोसा दिलाया कि सबकी पीड़ा दूर की जाएगी। जनता दर्शन में पुलिस और राजस्व अधिकारी से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों ने



‘आम आदमी का विश्वास जीते’
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद, विधायक
समेत सभी जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया
कि वे विकास कार्यों की सतत निगरानी करें
और आम आदमी का विश्वास जीते।
जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में पात्रों को
सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
दिलाने को तत्पर रहें, विकास कार्यों के नए
प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराएं। सुरक्षित
माहौल में विकास और जनकल्याण सरकार की
प्रतिबद्धता है। योगी रविवार को एनेक्सी भवन में
गोरखपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ
संवाद कर रहे थे।

जिले स्तर पर ही समस्या का समाधान सुनिश्चित करें ताकि लोगों को परेशान न होना पड़े। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण में हीलाहवाली अक्षम्य होगी।

लोकतंत्र में विश्वास करती हैं, तो उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री देव ने दावा किया कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से पूँजीवर राक्षस में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम पिछले बंगाल में अपने दो दशदशवी प्रवास के दौरान पीड़ितों से बात करके और स्थिति का जायजा लेगे। भाजपा ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव समप्त होने के बाद सत्तारूढ़ तृणलोकसभ समर्थकों द्वारा पिछले बंगाल के विभिन्न हिस्सों में उसके कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ हिंसा हो रही है और उन्हें घमकी दी जा रही है। भाजपा ने पिछले बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 12 पर जीत हासिल की है, जबकि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणलोक कांग्रेस 29 सीट पर विजयी हुई है और कांग्रेस को एक सीट मिली है।

कहा, “मुझे दो आता है कि 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, छोटा राजन गिरोह का एक दल मुम्बई में जबर्न चलीका कंधा चलाते थे। ऐंसा लुत्ता है कि पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के धंधे चलाते गुए हैं।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, जबकि इस तरह के आपराधिक गतिविधियां बेरोकटो जारी हैं। मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों द्वारा चरुनव बाद की गई हिंसा के पीड़ित होने का दावा करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।

उन्होंने एक घटना को उजागर किया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने शनिवार को यहां स्वायत्त बी.टी. रोड पर एक व्यापारी की कार पर गोली चलाई थी।

अखिलेश यादव ने फिर ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल

લખનઠુ, 16 જૂન (ભાષા) ।

सपा के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को एक बार फिर से ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए आगामी सभी चुनाव मतपत्रों के जरिए कराने की मांग की।

सपा प्रमुख यादव ने रविवार को एक्सप्रेस पर अपने एक पोस्टर में कहा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए विद्युत होनी है, अगर वह मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। यादव ने इसी पोस्टर में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जब विषय के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी का आशंका जाहिर की जा रही है और न्यूना के जमाने-माने प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स) ईवीएम में दोषों की खरों की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल को जित के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। उन्होंने कहा कि आगामी सभी चुनाव बैलेट पर (मनपत्र) से कराने की अपनी मांग को सही ढंग पर दोहराते हैं। यादव पहले भी ईवीएम की विषयवस्तु पर सवाल उठाते रहे हैं। हालाँकि, हाल में



सपा प्रमुख ने कहा कि आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर (मतपत्र) से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं।

संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सपा को राज्य की 80 लोकसभा सीटों में 37 और उसकी सहयोगी कांग्रेस को छह सीटों पर जीत मिली।

वहीं सत्तारूढ़ भाजपा को 33 और सहयोगियों की तीन सीटों पर ही जीत मिली। आजाद समाज पार्टी (काशीगंज) के हिस्से में भी एक सीट आई है। एनएलएमक की बात पर राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है।

राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, जिसकी जांच करने की अनुमति किसी को भी नहीं है।

बार एसोसिएशन के चुनाव में भी दिखी पीडीए की झलक

इटावा, 16 जून (जनसत्ता)। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में भी सपा के पीडीए (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) की झलक देखने को मिली। वामपंथी अनिल सिंह गौर अध्यक्ष और अति पिछड़ी जाति के

देवेन्द्र सिंह महामंत्री बने हैं। जिला बार के चुनाव में पीडीए के कामयाब होने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि 23 पद के लिए हुए चुनाव में 14 पदों पर पीडीए से संबंधित अधिवक्ता ही विजयी हुए हैं। इसी

तरह से मध्यम उपाध्यक्ष के दो पदों में से एक पर दलित जाति के मनोज कुमार की जीत हुई है। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के दो पदों में से एक पर दलित जाति के गजेंद्र सिंह को जीत मिली। संयुक्त मंत्री के तीन पदों से दो

पर पिछड़ी जाति के अनिल शाक्य और सुभाष चंद्र जीते हैं। वरिष्ठ सदस्य के 6 में से तीन पदों पर पिछड़ी जाति से जुड़े मुकेश यादव और समाजवादी वीरपाल सिंह और सत्य प्रकाश सिंह को जीत हासिल हुई है।

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSE AND IS NOT A PROSPECTUS OR AN OFFER OF SECURITIES)			WINNY IMMIGRATION & EDUCATION SERVICES LIMITED			<div>  (Please scan this QR Code to view the Prospectus) </div>
<div>  </div>			<div> CIN: U93000GJ2008PLC054150 </div>			<div> Our Company was originally incorporated as 'Winny Immigration & Education Services Private Limited' as Private Limited Company under the provisions of Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated June 09, 2008 bearing Corporate Identification Number U93000GJ2008PTC054150 issued by the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli. Further, our Company was converted in to a public limited Company pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the EGM held on November 07, 2023 and consequently the name of our Company was changed to 'Winny Immigration & Education Services Private Limited' and a fresh certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad dated November 08, 2023. The CIN of the Company is U93000GJ2008PLC054150. For further details, please refer the chapter titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 97 of Prospectus. </div>
<div> Registered office: 103-104, ATP Arcade, Above Mr. Bear's Coffee Shop, Nr. National Handloom House, Law Garden, Ahmedabad, Gujarat, India, 380006 </div>			<div> Tel No.: 079-61906190; Website: www.winnyimmigration.com; E-Mail: compliance@winnyimmigration.com </div>			<div> Contact Person: Ishita Shah, Company Secretary and Compliance Officer </div>
<div> OUR PROMOTER : JIGNESH PATEL </div>			<div> THE ISSUE </div>			<div> INITIAL PUBLIC ISSUE OF 6.52,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH OF WINNY IMMIGRATION & EDUCATION SERVICES LIMITED ("WINNY" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 140 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 130 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 912.80 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 34,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 140 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 130 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 47.60 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E., NET ISSUE OF 6,18,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT A PRICE OF ₹ 140 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 865.20 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.05 % AND 28.48 % RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 172 OF PROSPECTUS. </div>
<div> The Face Value of The Equity Shares is ₹ 10/- Each and The Issue Price is ₹ 140 Each. </div>			<div> The Issue Price is 14 Times of The Face Value </div>			<div> THIS ISSUE IS BEING MADE THROUGH FIXED PRICE PROCESS IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS") AND ALLOCATION IN THE NET ISSUE TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253 OF THE SEBI ICDR REGULATIONS. IN TERMS OF THE REGULATION 19(2)(B)(I) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATIONS) RULES, 1957, AS AMENDED (THE "SCRR"), THE ISSUE IS BEING MADE FOR AT LEAST 25% OF THE POST-PAID-UP SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. ALL THE BIDDERS, SHALL PARTICIPATE IN THE ISSUE THROUGH THE APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA") PROCESS BY PROVIDING DETAILS OF THEIR RESPECTIVE BANK ACCOUNT (INCLUDING UPIID FOR RIIS USING UPI MECHANISM) WHEREIN THE BID AMOUNT WILL BE BLOCKED BY THE SCBSs OR UNDER THE UPI MECHANISM, AS THE CASE MAY BE, TO THE EXTENT OF RESPECTIVE BID AMOUNTS. FOR DETAILS PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED "ISSUE PROCEDURE" BEGINNING ON PAGE 181 OF THIS PROSPECTUS. </div>
<div> FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 140 PER EQUITY SHARE </div>			<div> MINIMUM APPLICATION OF 1000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1000 EQUITY SHARES THEREAFTER </div>			<div> ISSUE OPENS ON: THURSDAY, JUNE 20, 2024 </div>
<div> ISSUE CLOSING ON: MONDAY, JUNE 24, 2024 </div>			<div> ASBA * </div>			<div> Simple, Safe, Smart way of Application – Make use of it!!! </div>
<div> *Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below. </div>			<div> Mandatory in public issue No cheque / demands will be accepted </div>			<div> UPI – Now Mandatory in ASBA for Retail Individual Investors (RII) applying through Registered Brokers, DPs and RTAs. RII also have option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCBSs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors are required to ensure that the Bank A/c used for bidding is linked to their PAN </div>
<div> UPI – Now Mandatory in ASBA for Retail Individual Investors (RII) applying through Registered Brokers, DPs and RTAs. RII also have option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCBSs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors are required to ensure that the Bank A/c used for bidding is linked to their PAN </div>			<div> For details on ASBA and UPI process, please refer to the details given in Application Form, Abridged Prospectus and General Information Document for investing in the public issue and also please refer to Section "Issue Procedure" beginning on page 181 of the Prospectus. ASBA Forms can be downloaded from the websites of National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") at www.sebi.gov.in. List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. </div>			<div> IN TERMS OF THE CIRCULAR NO. CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015 DATED NOVEMBER 10, 2015 AND ALL POTENTIAL INVESTORS PARTICIPATE IN THE ISSUE ONLY THROUGH APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA) PROCESS PROVIDING DETAILS ABOUT THE BANK ACCOUNT WHICH WILL BE BLOCKED BY THE SELF-CERTIFIED SYNDICATE BANKS (SCSBs) FOR THE SAME. FURTHER PURSUANT TO CIRCULAR BEARING NO. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/76 DATED JUNE 28, 2019 FOR IMPLEMENTATION OF PHASE II FOR UPI FACILITY, WHICH IS EFFECTIVE FROM JULY 01, 2019. ALL POTENTIAL BIDDERS (EXCEPT ANCHOR INVESTORS) ARE REQUIRED TO MANUALLY UTILIZE THE APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA) PROCESS PROVIDING DETAILS OF THEIR RESPECTIVE ASBA ACCOUNT OR UPIID (IN CASE OF RIIS), IN WHICH THE CORRESPONDING APPLICATION AMOUNTS WILL BE BLOCKED BY THE SCBSs OR UNDER THE UPI MECHANISM, AS APPLICABLE. </div>
<div> FOR MORE DETAILS IN THIS REGARD, SPECIFIC ATTENTION IS INVITED TO THE "ISSUE PROCEDURE" ON PAGE NO. 181 OF THE PROSPECTUS. IN CASE OF DELAY, IF ANY IN UNBLOCKING/ REFUND THE FUND, OUR COMPANY SHALL PAY THE INTEREST ON THE APPLICATION MONEY AT THE RATE OF 15% PER ANNUM FOR THE PERIOD OF DELAY. </div>			<div> PROPOSED LISTING </div>			<div> GENERAL RISK </div>
<div> The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE Emerge"). In terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time. Our Company has received an In Principal Approval Letter dated May 27, 2024 from National Stock Exchange of India Limited (NSE) for using its name in this offer document for listing of our shares on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited. For the purpose of this Issue, the designated Stock Exchange will be the National Stock Exchange of India Limited ("NSE"). </div>			<div> INVESTMENTS IN EQUITY AND EQUITY-RELATED SECURITIES INVOLVE A DEGREE OF RISK AND INVESTORS SHOULD NOT INVEST ANY FUNDS IN THIS ISSUE UNLESS THEY CAN AFFORD TO TAKE THE RISK OF LOSING THEIR INVESTMENT. INVESTORS ARE ADVISED TO READ THE RISK FACTORS CAREFULLY BEFORE TAKING AN INVESTMENT DECISION IN THIS OFFERING. FOR TAKING AN INVESTMENT DECISION, INVESTORS MUST RELY ON THEIR OWN EXAMINATION OF OUR COMPANY AND THE ISSUE INCLUDING THE RISKS INVOLVED. THE EQUITY SHARES OFFERED IN THE ISSUE HAVE NEITHER BEEN RECOMMENDED NOR APPROVED BY SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOR DOES SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA GUARANTEE THE ACCURACY OR ADEQUACY OF THIS PROSPECTUS. SPECIFIC ATTENTION OF THE INVESTORS IS INVITED TO THE SECTION TITLED "RISK FACTORS" BEGINNING ON PAGE NO. 18 OF THIS PROSPECTUS. </div>			<div> CREDIT RATING: This being the issue of Equity Shares, no credit rating is required. </div>
<div> DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI") </div>			<div> DEBENTURE TRUSTEES: As this is an issue of Equity Shares, the appointment of Trustees is not required. </div>			<div> IPO GRADING: Since this issue is made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO Grading Agency. </div>
<div> Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Offer Document was not filed with SEBI. In terms of the SEBI ICDR Regulations, SEBI shall not issue any observations on the Offer Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire "SEBI Disclaimer Clause" on page 165 of the Prospectus. </div>			<div> BASIS OF ISSUE PRICE: The Issue Price is determined by the Company in consultation with the Lead Manager. The financial data presented in section "Basis of Issue Price" on page no. 64 of the Prospectus are based on Company's Restated Financial Statements. Investors should also refer to the section titled "Risk factors" and "Restated Financial Statement" on page no. 18 and 114 respectively of the Prospect</div>			